



केन्द्रीय विद्यालय क्र.2 झाँसी कैंट
KENDRIYA VIDYALAYA NO 2 JHANSI CANTT
कक्षा III 2020-21 में प्रवेश हेतु पंजीकरण फॉर्म

REGISTRATION T FORM CLASS – III (2020-21) ADMISSION

Website: <https://no2jhansicantt.kvs.ac.in>

Email: kv2admjhs@gmail.com

Online Registration form link for Class III only : <https://forms.gle/fWQdSJWzg19fkA7N7>

Landline: 0510-2471442

1. Name of Student (In capital Letters).....
2. Aadhar No. of the student.....
3. Whether Girl /Boy/Other
4. Date of Birth (In numerals).....
(In.words)..... (Attach copy of certificate)
5. Single Girl Child: Yes / No
6. Age as on 31st march 2020.....
7. Previous Class of the child.....
8. Name of Previous school.....
Whether Recognized (Submit TC at the time of Admission) Yes /No
9. Class In which admission is to be done
10. Father's Name.....
11. Mother's Name
12. Mobile Number of parents
13. E-Mail ID of the Parent.....
14. Nationality.....
15. Religion.....

Passport
size photo
of the
Student

16. PRIORITIES IN ADMISSION .(Kindly Tick only one BOX as applicable)

The following priorities shall be followed in granting admissions: -(Note: Preference in Admission to wards will be based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.)

Cat I:Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of

Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.

Or

Cat II: Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.

Or

Cat III: Children of transferable and non-transferable State Government employees.

Or

Cat IV: Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.

Or

Cat V: Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no Children of Indian Nationals waitlisted for admission.

- 17. Social Category;(SC/ST/OBC)
(Attach copy of certificate)
- 18. P H (Physical Disable) Yes / No
If Yes Attach copy of certificate)
- 19. Blood Group of the
student.....
- 20. Local Address.....
.....
.....(Attach Proof of Residence).....
- 21.. Permanent Address
.....
.....
- 22 Home Town Home State
- 23. Distance from the Vidyalaya
.....
- 24. Basic Pay
.....
- 25. Annual Income of Parents (Father &
Mother).....

26. Whether EWS..... (Attach Proof of Income) Yes/ NO

27. Whether Tuition fee is Reimbursable in the department of the Father /Mother Yes/ No

28. Father's occupation with office address (Write Not applicable if not in service) (Attach copy of Service certificate)
.....
.....

29. Mother's occupation with office address (Write Not applicable if not in service) (Attach copy of service certificate)
.....
.....

30. Number of Transfers within 7 years of service.....

S. No	Office/Unit	Place	Rank/Desig	Date		Period of Stay	Order No.
				From	To		

Certify that the all information filled is correct and verified

माता के हस्ताक्षर
Mothers Signature

पिता के हस्ताक्षर
Fathers Signature

I/C Admission

Sign. of class teacher :

Sign Office I/C

प्राचार्य/Principal

(Attached Format for certificates. Use Following Format for certificates if applicable)

DIED IN HARNESS CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमारी..... स्वर्गीय श्री /
श्रीमती के पुत्र/पुत्री हैं जो
..... (कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे / थीं और उनका
देहावसान सेवान्काल की अवधि में दिनांकको हो गया था।

Certified that Master/Miss Is the
son.daughter of Late Sr./Smt. Who was
regular employee of (Office/Department) and
he/she died in harness (while in service) on(date).

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature oh Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता और दूरभाष संख्या/ Complete address and Telephone No. of office
.....

Self Declaration for distance between school and residence

I father/Mother of
bearing Enrollment No. Declare that the radial
distance between school and our residence iskm.

Date:.....

Signature of the parent

सेवा प्रमाणपत्र / Service Certificate

(केन्द्रीय सरकार / Central Govt.)

प्रमाणित है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा बल / एन.एस.जी. / एस.पी.जी / सी.आइ.एस.एफ. / केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित हैं, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है / पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt. is working as regular employee in the Office / Ministry of He/She is an employee of Defence Service / CRPF / BSF / NSG / SPG / CISF / Central Govt. / Autonomous Body / Public Sector Undertaking fully financed / partially finance by the Central Govt. and his / her services are non-transferable / transferable anywhere in India.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता और दूरभाष संख्या/ Complete address and Telephone No. of office

.....

Service Certificate

(राज्य सरकार / State Govt.)

प्रमाणित है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है / पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt. is working in the Office / Ministry of and his / her services are non-transferable / transferable anywhere in State.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता और दूरभाष संख्या/ Complete address and Telephone No. of office

.....

SINGLE GIRL CHILD

Rs. 100/- Stamp paper (Notary) Affidavit

I.....aged.....years, Indian
Inhabitant occupationResident of
..... is mother/father of
..... Date of Birth..... Submitting
my undertaking to the Head of the Institution in Class I Vide KVS Admission Guidelines
2018)

- 1) I hereby declare that Miss..... is the only girl
child in my family (with no male/female sibling). I understand that it shall be my
sole responsibility to inform you about any change in status of single girl child in
the family immediately, if and when it occurs.
- 2) I am also aware that in case it is detected at any time that the affidavit sworn by
me is false, appropriate action will be taken by the school authorities and KVS
against me.

Signature of father

Signature of mother

Residential address with
Contact number:

Solemnly affirmed at
This.....day of.....20.....

BEFORE ME

Explained and Identified by me,

Advocate

Attach certificate of number of Transfers in following format (for Govt. Emp. only):-

Transfer Details

Certified that Sh/Smt Post

.Is working(Deptt) inand his service is transferable

His/her Transfers details in last 07 years are as follows.....

S. No	Office/Unit	Place	Rank/Desig	Date		Period of Stay	Order No.
				From	To		

**Sign.of the Head of the office
(With name and Designation)**

**Date:.....
Place:.....**